



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1984/माघ 1, 1905  
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1984/MAGHA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

द्विस्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अभिप्रेतनाएं

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1984

का० प्रा० 29(अ):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर 21-1-1984 से सोलापुर ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1-6/83-प्रार०प्रार० बी०-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th January, 1984

S.O. 29(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the

Central Government, on being requested so to do by Bank of India establishes, with effect from the 21-1-1984 a Regional Rural Bank in the State of Maharashtra under the name of Solapur Gramin Bank which shall operate within the local limits of the District of Solapur in the State of Maharashtra.

[No. F. 1-6/83-RRB(D)]

का० प्रा० 30(अ):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सोलापुर ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके सोलापुर को उक्त स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर सोलापुर बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-6/83-प्रार०प्रार० बी० (2)]

S.O. 30(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India by which Solapur Gramin Bank has been sponsored specifies Solapur as the place where Solapur Gramin Bank shall have its head office.

[No. 1-6/83-RRB(II)]

का० आ० 31 (अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक० 1-6/83-आर०आर०बी० (3)]

S.O. 31(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Solapur Gramin Bank, Solapur being an institution established under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-6/83-RRB(III)]

का० आ० 32 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री दत्तात्रेय ढोंड्ये जोशी को सोलापुर ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 21-1-1984 से प्रारम्भ होकर 31-1-1987 को समाप्त होने वाली अवधि का उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री दत्तात्रेय ढोंड्ये जोशी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक० 1-6/83-आर०आर०बी० (4)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 32(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Dattatraya Dhondeo Joshi as Chairman of the Solapur Gramin Bank, Solapur and specifies the period commencing on the 21-1-1984 and ending with the 31-1-1987 as the period for which the

said Shri Dattatraya Dhondeo Joshi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-6/83-RRB(IV)]

Ashok Chandra, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक  
(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)  
अधिसूचना

बम्बई, 21 जनवरी, 1984

का० आ० 33 (अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—

“सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर (महाराष्ट्र)”

[आर०पी०सी०डी० संख्या 271/आई एन सी एल /311-83]

टी०एन० अनन्तराम अय्यर, कार्यकारी निदेशक

# RESERVE BANK OF INDIA (Rural Planning and Credit Department) NOTIFICATION

Bombay, the 21st January, 1984

S.O. 33(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

“Solapur Gramin Bank, Solapur (Maharashtra)”.

[RPC D. No. 271/INCL/311-83]

T. N. ANANTHARAM IYER,  
Executive Director.